



Date: July 8, 2023

The Secretary,

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,

Bandra (E),

Mumbai – 400 051

NSE Code: ARTEMISMED

The Secretary, **BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai – 400 001

Scrip Code: 542919

Sub: Intimation of publication of Notice in respect of 19th Annual General Meeting ("AGM") and e-Voting information

Dear Sir/Ma'am,

We hereby wish to inform you that the electronic copies of Notice of 19th AGM and Annual Report for financial year ended March 31, 2023 have been sent on July 7, 2023 to all the Members, whose email IDs are registered with Company/RTA/ Depository Participant(s) as on June 30, 2023.

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Notice published in the following newspapers in respect of AGM and e-Voting information:

- The Financial Express (English National Daily Newspaper- all editions);
- The Jansatta (Hindi National Daily Newspaper- Delhi edition).

Submitted for your information & records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Artemis Medicare Services Limited

Poonam Makkar **Company Secretary & Compliance Officer**

Encl.: As above



Artemis Hospital (A unit of Artemis Medicare Services Ltd.)

OrchidPharma P

ORCHID PHARMA LIMITED

Regd off: "Orchid Towers" 313 – Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam Chennai–600034 CIN: L24222TN1992PLC022994

Phone: +91 - 44 -2821 1000 Fax: 91 - 44 - 2821 1002 Website: www.orchidpharma.com, E-mail: corporate@orchidpharma.com

NOTICE ON INFORMATION REGARDING 30TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND FOR UPDATION OF EMAIL ADDRESSES

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (hereinafter called as "AGM") of Orchid Pharma Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 09th August 2023 at 11.30 A.M. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC" / "OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made hereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read vith General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by SEBI and other applicable circulars issued in this regard, to transact the businesses as set out in the AGM Notice which will be circulated in due course for convening the AGM. The Annual Report including the financial statements for the financial year ended March 31; 2023

along with Notice of the AGM will be sent electronically to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ M/s Abhipra Capital Ltd, Registrar and Share Transfer Agent or with the respective Depositary Participant(s) in accordance with the Circulars referred above Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for the year 2022-23 will also be available on the Company's Website at <u>www.orchidpharma.com</u>, websites of the stock exchanges e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) (agency providing the VC/OAVM facility, Remote e-voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com.

Manner of registering/ updating email addresses to receive the Notice of 30th AGM alongwith

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email address on or before 5:00 PM (IST) as on the cut-off date (record date) i.e. 14th July 2023, for registering their email addresses to receive the Notice of AGM and Annual Report electronically and to receive login ID and password for e-voting by writing to the Company at cs.orchidpharma.com / RTA at rta@ abhipra.com alongwith copy of the request letter signed by the members mentioning the name and address, self-attest copy of the permanent account number (PAN) and selfattested copy of any document (e.g. Aadhaar Card, Driving License, Voter Identity Card, Passport) in support of the address of the member.

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email address with the relevant depository participant (DP).

Manner of casting vote through-e-voting

Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as may best forth in the Notice of the AGM through remote e-voting system. The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the

Members through the various modes as may be provided in the notice as well as through email after successfully registering their email addresses. The details will also be made available on the website of the Company

Manner of registering KYC:

Place: Chennal

Date: July 08, 2023

For Members holding shares in physical mode, SEBI vide its Circulars dated 3rd November, 2021 and March 16, 2023 has mandated registration of PAN, KYC details and Nomination. Members holding shares in physical form are, therefore, requested to submit their PAN, KYC details and Nomination details to M/s Abhipra Capital Limited at Abhipra Complex A-387,Dilkhush Indl Area, G.T. Karnal Road, Azadpur, Delhi 110033 or at <u>rta@abhipra.com/abhinav@abhipra.com</u> by sending a duly filled Form ISR-1 and other relevant forms (available on the website of the Company at www.orchidpharma.com) from their registered email ID.

For Orchid Pharma Limited

Marina Peter Company Secretary and Compliance Officer



Hero FinCorp Limited

CIN: U74899DL1991PLC046774 Regd. Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Dell-Corporate Office: 09, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, N

Tel: 011-49487150 | Fax: 011-49487197-98

. 10057

Website: www.herofincorp.com | Email: investors@herofincorp.com NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

will be held on Wednesday, August 02, 2023 at 3:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the ordinary and special business as set out in the notice of AGM. n view of the COVID-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide general circular nos. 14/ 2020 7/2020, 20/2020, 02/ 2021, 20/2021, 21/2021 and 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, anuary 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022 and December 28, 2022 respectively hereinafter collectively referred to as "Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act 2013 ("Act") permitted holding of the AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) pto September 30, 2023 and to send financial statements (alongwith Board's report, Auditors' Report and other documents to be attached therewith) through email. Hence, in compliance with these Circulars, the AGM of the

aforesaid Circulars and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, the annual report and notice are peing sent only in electronic form to those shareholders whose email addresses are registered with the Company o with their respective depository participants as on June 30, 2023. The dispatch of notice of AGM and Annual Report 2022-23 through email has been completed on Friday, July 07, 2023. These documents are also available on website of the Company www.herofincorp.com, website of stock exchange i.e. NSE at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depositories Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the Cut-off Date i.e. Wednesday, Jul 26, 2023, may cast their vote electronically on all item of business as set out in the notice of AGM through electronic voting system from a place other than the venue of AGM (remote e-voting) of NSDL. The members are urther informed that:

 The ordinary and special business as set out in the notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.

The remote e-voting ends at 5:00 p.m. (IST) on Tuesday, August 01, 2023.

f) The Cut-off Date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Wednesday, July

notice of AGM and holding shares as on Cut-off Date i.e. Wednesday, July 26, 2023, may obtain login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free number 1800-1020-990 and 1800 22 44 30. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then the existing user ID and password The member may note that (i) The remote e-voting module shall be disabled for voting after the date and time

mentioned under point 'c' above; (ii) once the vote on a resolution is cast by member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (iii) the facility of voting through electronic voting system shall be made available at the AGM; (iv) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting; and (v) a person whose name on the Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

dematerialized mode or who have note registered their email addresses with the Company / Depository Participant, is provided in the notice of AGM and available on the Company's website a

Manner of registering/updating email address:

i) Members, holding shares in physical mode, are required to get their email ids registered by visiting the following link: https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html or by writing to the Registrar

ii) Members, holding shares in dematerialized mode, are requested to register/ update their email IDs with their respective Depository Participants.

The manner of registering the dividend mandate has been provided in the notice of AGM. For any grievance regarding e-voting, the members may write to Mr. Shivendra Suman, Head- Compliance & Company Secretary at 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057 or at email id investors@herofincorp.com. Further, for e-voting queries, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs.) and e-voting user manual available for them at the download section of www.evoting.nsdl.

The Company has appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht (CP No. 13700) Partner of M/s DPV & Associates LLI Company Secretaries as the scrutinizer for ensuing AGM to scrutinize the voting process in a fair and transparent

share transfer books of the Company will remain closed from Thursday, July 27, 2023 to Wednesday, August 02, 2023 for the purpose of AGM and for determining the entitlement of the members of final dividend (if declared) for the financial year 2022-23. A person who is not holding shares/securities as on the Cut-off Date should treat this notice for information

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular,

By order of the Board

For Hero FinCorp Limited

Place: New Delhi Date: July 07, 2023

Head - Compliance & Company Secretary

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securifies. Not for release, publication or distribution directly or indirectly, outside India.





YATHARTH HOSPITAL & TRAUMA CARE SERVICES LIMITED

Our Company was incorporated as 'Yatharth Hospital & Trauma Care Services Private Limited' in Delhi as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated February 28, 2008, issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana ("RoC"). Pursuant to a special resolution passed by our Shareholders on November 3, 2021, our Company was converted into a public limited company and consequently, the name of our Company was changed to "Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited" and a fresh certificate of incorporation dated November 18, 2021 was issued by the RoC. For details of change in name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 209 of the Draff Red Herring Prospectus dated March 30, 2022 ("DRHP"), filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

Registered Office: JA 108, DLF Tower A, Jasola District Centre, South Delhi, Delhi - 110 025, India; Tel: +91-11 4996 7892. Corporate Office: HO-01, Sector-1, Greater Noida West, Ultar Pradesh 201 306, India; Tel: 191 120 681 1236 Contact Person: Ritesh Mishra, Company Secretary and Compliance Officer, E-mail: cs@yatharthhospitals.com; Website: www.yatharthhospitals.com Corporate Identity Number: U85110DL2008PLC174706

OUR PROMOTERS: AJAY KUMAR TYAGI AND KAPIL KUMAR

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [◆] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH (*EQUITY SHARES") OF YATHARTH HOSPITAL & TRAUMA CARE SERVICES LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [◆] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [◆] PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 4,900,00° MILLION BY OUR COMPANY (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 6,551,690 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [◆] MILLION BY THE SELLING SHAREHOLDERS (THE "OFFER FOR SALE") COMPRISING UP TO 3,743,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [◆] MILLION BY VIMLA TYAGI, UP TO 2,021,200 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [◆] MILLION BY PREM NARAYAN TYAGI AND UP TO 787,490 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [◆] MILLION BY NEENA TYAGI (COLLECTIVELY "PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDERS"AND SUCH EQUITY SHARES, THE "OFFERED SHARES"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [◆]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

*OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BRUMS, UNDERTAKEN A PRE-IPO PLACEMENT BY WAY OF PRIVATE PLACEMENT OF 4,000,000 EQUITY SHARES FOR CASH AT A PRICE OF ₹300 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 290 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 1,200.00. MILLION (PRE-IPO PLACEMENT). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO ₹ 6,100.00 MILLION HAS BEEN REDUCED BY ₹ 1,200.00 MILLION PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, AND ACCORDINGLY, THE REVISED SIZE OF THE FRESH ISSUE IS UP TO ₹ 4,900.00 MILLION.

NOTICE TO INVESTORS

With reference to the DRHP filed with the SEBI and the Stock Exchanges, the potential bidders should note the following:

A. Our Company has undertaken a private placement of 4,000,000 Equity Shares at an issue price of ₹300 per Equity Share [including a share premium of ₹ 290 per Equity Share) aggregating to ₹1,200.00 million ("Pre-IPO Placement") as approved by our Board at its meeting held on July 05, 2023 and by our Shareholders at their extra. ordinary general meeting held on July 05, 2023. The details of Equity Shares allotted to the investors in the Pre-IPO Placement are set out below:

Date of Allotment	No. of Equity Shares allotted	Details of allottees*			Face value per Equity Share (₹)	Issue price per Equity Share (₹)	Form of consideration	Reason/ Nature of allotment	
July 06, 2023	4,000,000	Sr. No.	Name	No. of Shares	Amount {₹ million}	10	300	Cash	Private Placement
		1.	Plutus Wealth Management LLP	2,000,000	600.00				
		2.	Think India Opportunities Master Fund LP	1,000,000	300.00				
		3.	Vikas Vijaykumar Khemani	333,333	100.00				
		4.	Rosy Blue Diamonds Pv1 Ltd	433,334	130.00				
		5.	Viraj Russell Mehla	233,333	70.00				
			Total	4,000,000	1,200.00				

*The allottees are in no manner connected with our Company, the Subsidiaries, the Promoters or Promoter Group, Directors, KMPs, and the directors and KMPs of Subsidiaries and members of Promoter Group. Further, our Company does not have any Group Company as on date.

B. Pursuant to the Pre-IPO Placement our paid-up Equity Share capital has increased from ₹ 655.17 million to ₹ 695.17 million.

C. The size of the Fresh Issue of up to ₹6,100.00 million as disclosed in the DRHP has been reduced by ₹1,200.00 million pursuant to the Pre-IPO Placement and the revised. size of the Fresh Issue is up to ₹ 4,900.00 million. For risk regarding apprehension/concerns of the listing of our Equity Shares on the Stock Exchanges see "Risk Factor" No. 80 - There is no assurance that our Equity Shares will be listed on the Stock Exchanges in a timely manner or at all" on page 67 of the DRHP.

The above changes should be read in conjunction with the DRHP. The information in this Notice to Investors supplements the DRHP and updates the information in the DRHP, as applicable. However, this Notice to Investors does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the DRHP and the date hereof, and the information included in the DRHP will be suitably updated, including to the extent stated, and consequent to the contents of, this Notice to Investors, as may be applicable in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, SEBI and the Stock Exchanges.

All capitalised terms used in this Notice to Investors shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the DRHP.

For Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited On behalf of the Board of Directors

Sd/-Rifesh Mishra.

Place: Delhi Date: July 7, 2023

Company Secretary and Compliance Officer

YATHARTH HOSPITAL & TRAUMA CARE SERVICES LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory require ments, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated March 30, 2022 with SEBI on March 31, 2022. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and the websites of the BRLMs, i.e., Intensive Fiscal Services Private Limited, Ambit Private Limited and HFL Securities Limited at www.intensivefiscal.com, www.ambit.co.and www.iiflcap.com, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled "Risk Factors" on page 24 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 [the "U.S. Securities Act"] or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in offshore fransactions in reliance on Regulation 5 and the applicable laws of each jurisdictions where such offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

OUR SPECIALITY IS YOU

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED CIN: L85110DL2004PLC126414

ARTEMIS

Registered Office: Plot No. 14, Sector- 20, Dwarka, Delhi-110 075 Corporate Office: Artemis Hospital, Sector- 51, Gurugram, Haryana- 122001 Tel.: +91-124-4511 111, E-mail: investor@artemishospitals.com Website: www.artemishospitals.com

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Artemis Medicare Services

Limited ("the Company") will be held on Tuesday, August 1, 2023 at 3:00 P.M. (IST) through Video Conference "VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations') read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 8, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021, 2/2022 dated May 5, 2022 and 10/2022 dated December 28, 2022 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/ PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as Circulars), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the aforesaid Circulars, electronic copy of the Notice of the 19th AGM along with Annual Report of

the Company for the financial year ended March 31, 2023 have been sent on July 7, 2023, electronically, to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Alankit Assignments Limited ("RTA")/Depository Participants ("DP") as on June 30, 2023. The Notice of AGM along with Annual Report is also available on Company's website www.artemishospitals.com and

on the websites of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com and the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. Members are requested to update/register their KYC details in the following manner, inter-alia, to receive electronic

copies of the Annual Report and Notice of AGM including instructions for e-Voting, instructions for participation in the AGM through VC/OAVM and receive the electronic credit of dividend into their bank account: Register/update KYC details such as PAN, e-mail addresses and Electronic Clearing Services ("ECS" in case of

physical holding mandate with RTA of the Company at rta@alankit.com, in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023. Members may download the prescribed forms from the Company's website at

In case of demat Please contact your DP to register/update KYC details such as PAN, e-mail addresses and bank

account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

nstructions for remote e-Voting and e-Voting during AGM: The facility of casting the votes by the Members ("e-Voting") will be provided by NSDL. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote

e-Voting or e-Voting during the AGM and join the AGM through VC/OAVM. Shareholders who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-Voting or e-Voting during the AGM in the

The Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Tuesday, July 25, 2023, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 19th AGM through electronic voting system of NSDL. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paidup equity share capital of the Company as on the cut-off date. All the Members are informed that:

1. The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means; The remote e-Voting shall commence on Saturday, July 29, 2023 at 9:00 A.M. (IST);

The remote e-Voting shall end on Monday, August 31, 2023 at 5:00 P.M. (IST);

4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Tuesday, July 25,

manner provided in the Notice of the AGM.

e-Voting as well as e-Voting at the AGM.

2023 and a person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes 5. Person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after sending of the Notice of AGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the login ID and password

as provided in the Notice of the AGM. If such a person is already registered with NSDL for e-Voting, the existing user ld and password can be used for casting vote 6. Members may note that: » the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for e-Voting and

once the vote on a resolution is casted by the Member, the Member shall not be allowed to change i

» the Members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; » the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM;

» a person whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. July 25, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote

The Annual Report along with the Notice of the 19th AGM is available on the web-link https://www.artemishospitals The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Deepak Kukreja (holding Certificate of Practice No. 8265), Partner, DMK Associates, Practicing Company Secretaries ("DMK"), as the Scrutinizer and in case of failing him, Ms. Monika Kohli (holding Certificate of Practice No. 4936), Partner, DMK, as an alternate Scrutinizer to

scrutinize the e-Voting process in a fair and transparent manner. In case of any gueries including issues and concerns related to remote e-Voting and e-Voting at the AGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 at the designated e-mail id evoting@nsdl.co.in. Members may

also write to the Company Secretary at investor@artemishospitals.com. The Record date for the purpose of determining entitlement of shareholders for the Dividend is July 14, 2023. The payment of dividend shall be made within 30 days from the date of AGM, subject to approval of the Members a

presence of the Members at the common venue.

For Artemis Medicare Services Limited

DALMIA BHARAT REFRACTORIES L.

Phone: 011-23457100, E-mail: snccil@dalmiarf.com Website: www.dalmiaodl.comCTN: L26100TN2006PLC061254

NOTICB is hereby given that the 17th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Dalmia Bharat Refractories Limited ('Company/ DBRL') will be held on Monday, the 31stday of July,2023 at 11:00 A.M. at the registered office of the Company situated at Dalmiaguram, P.O. Kallakudi-621 651, Distt. Tiruchiragalli, Tamil Nadu for transacting the businesses as stated in the notice dated June 28, 2023.

at https://evolting.kfintech.com.our Registrarand Share Transfer Agent

(Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SBBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as a mended from time to time. the Company is pleased to provide the facility of remotele-voting to all the members to cast their vote by electronic mode through RTA of the Company on all resolutions set out in the notice dated June 28, 2023. The details of the facility are given here under:

 Date of completion of electronic dispatch of the AGM Notice: July 07, 2023. 2. Date and time of commencement of remote e-voting: Thursday, July 27, 2023 at 9:00

Dale and time of end of remote e-voting: Sunday, July 30, 2023 at 5:00 P.M. (TST)

In case a person becomes a shareholder of the Company after the dispatch of AGM notice but on or before the out-off date, i.e. July 24, 2023, the shareholder may write to RTA via

email id i.e. einward.ris@kfintech.com or Contact No. 040-67162222, to obtain the log in I Dand Password.

30, 2023. The shareholders who have east their vale through the remale e-voting facility may participate in the AGM but shall not be allowed to vote again at the AGM. Shareholder

who could not vote through remote e-voting may do the voting at the AGM. The shareholders whose name are recorded in the Register of Members or in the list of beneficial owners provided by depositories as on the out-off date are only entitled to a vail the facility of remote e-voting or voting in the AGM.

The shareholder who have casted their vote once on a resolution shall not be allowed to change itsubsequently or cast the vote again.

8. The notice of the AGM along with the procedure for remote e-voting, has been sent to all the shareholders electronically and the same is also available on the website of the Company at www.dalmiaocl.com, and on the website of RTA at https://evoling.kfintech.com.

Members and Share Transfer Books will remain closed from Friday, July 28, 2023 to Monday, July 31, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the said AGM and for determining the entitlement of the members for the final dividend, if approved for the financial year 2022-23. 10. For those members whose email id is not registered with the Company, may register their

number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of sharecertificate in case of physical folio for the necessary updations. The Company has appointed Otr. R. Venkalas ubramanian, Practicing Company Secretary. as the Scrutiniser to scrutinise the remote e-voting process and the e-voting at AGM

through Insta-Poll in a fair and transparent manner.

Place: New Delhi

Dated: July 07, 2023

For any further queries/grievances connected with e-voting, you may refer Frequently. Asked Question (FAQs) and e-voting User Manual for shareholders available at https://evolving.kfintech.comor.comtact.K.F.in Technologies Limited, at Tel No. -1-800-309-4001(toll free) or Ms. Meghna Saini, Company Secretary, 4, Scindia House, Connaught

For Dalmia Bharat Refractories Limited

Company Secretary Membership No-A42587

Poonam Makkar Company Secretary & Compliance Officer LYKIS LIMITED

CIN: L74999WB1984PLC038064 Registered Office: 7, Surendra Mohan Ghosh Sarani (Mangoe Lan 1st Floor, Room No.-105, Kolkata- 700001, West Bengal. Tel: +91 22 4069 4069 | Fax: +91 22 3009 8128 E-mail: cs@lykis.com; Website: www.lykis.com.

"Company") will be held on Wednesday, August 02, 2023 at 11:00 A.M. IST through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) in compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (as amended) (the "Act") and Rules made thereunder read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023, respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), along with any other applicable circulars issued by MCA and/or SEBI in this regard, to transact the business set out in the Notice convening the AGM, without the physical

NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING AND

INFORMATION ON BOOK CLOSURE AND E-VOTING

This is to inform you that the 39th Annual General Meeting (AGM) of Lykis Limited (the

The Company has sent the Notice convening the 39th AGM only through electronic mode on Friday July 07, 2023 to Members whose email addresses are registered with Company Registrar and Share Transfer Agent (RTA) / Depository Participants (DPs). The physical copies of the Notice of AGM & Annual Report for the Financial Year 2022-2023 will be dispatched to the Shareholders who request for the same. Additionally, the Notice of the 39th AGM along with Annual Report for the Financial Year 2022-23 of the Company is available on the websites of the Company www.lykis.com, the BSE Limited at www.bseindia.com as well as on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Members can attend and participate at the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice convening the AGM. Members attending through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing facility to all its Members to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice convening he AGM by electronic means (e-voting). A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the DPs as on the cut-off date, i.e. Wednesday, July 26, 2023 (cut-

prior to the AGM or remote e-voting during the AGM, on all the resolution set forth in the The remote e-voting period commences on Sunday, July 30, 2023 (9:00 AM IST) and ends on Tuesday, August 01, 2023 (5:00 PM IST). During this period members may cast their vote electronically. Remote e-voting module shall be disabled by NSDL at 5:00 PM on

off date) shall be entitled to avail the facility of remote e-voting provided by NSDL, either

Tuesday, August 01, 2023 and Members will not be allowed to vote through remote evoting thereafter. The remote e-voting module during the AGM shall be disabled by NSDL, immediately after the conclusion of AGM shall remain open only for 15 minutes. The members can opt only for one mode of remote e-voting i.e. prior to the AGM or during AGM. The Members who have cast their vote through remote e-voting are entitled to attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote on a resolution is cast by the Members, the same shall not be allowed to change subsequently.

Any person who acquire Shares of the Company and becomes Member after the dispatch of Notice and holding Shares as of the cut-off date, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting nsdl.co.in. However, if person is already registered with NSDL for remote e-voting then the Member can use their existing User ID and Password and cast their vote. Individual Members holding securities in demat mode and who acquire shares in the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of Notice and holding Shares as of the cut-off date may follow the steps mentioned in the Notice of AGM.

to update the same with their respective DPs and Members holding Shares in physical mode are requested to update the same with RTA by writing to them. Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) read with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from

In order to register email address, Members holding Shares in demat mode are requested

July 27, 2023 to August 02, 2023 (Both days inclusive) for the purpose of AGM. The Board of Directors have appointed Mr. Swapnil Pande (M.No A44893) of M/S. SCP & CO. Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process, in a fair and transparent manner.

In case of any guery / grievance with respect to Remote E-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote E-voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website or contact Mr. Amit Vishal, AVP / Ms. Pallavi Mhatre, Sr. Manager, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai 400 013 at toll free no. 1800 1020 990 / 1800 22 44 30 or at E-mail ID: evoting@nsdl.co.in


Place : Mumbai

New Delhi

Date: July 07, 2023

For Lykis Limited Darshana Sawant Company Secretary & Compliance officer

By Order of Board



Notice is hereby given that the 32rd Annual General Meeting (AGM) of the members of Hero FinCorp Limited

Company will be conducted through VC/OAVM. The procedure to join the meeting through VC/OAVM is provided in the notice of AGM. Also, in terms of the

The remote e-voting begins at 9:00 a.m. (IST) on Sunday, July 30, 2023.

Any person who acquires shares and becomes member of the Company after the dispatch of annual report and

is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as The manner of remote e-voting and voting at the AGM for member holding shares in physical mode or

& Share Transfer Agent (RTA) with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at

com or call at the toll free number 1800-1020-990 and 1800-22 44-30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre Senior Manager, NSDL, at evoting@nsdl.co.in, who will also address the grievances connected with the voting

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the register of members and

nstructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting during the AGM.

(Shivendra Suman)

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend hat readers inquiries make neces. before sending a rnies or entering into any as with advertisers or othe

acting on an advertisemer. Date: July 7, 2023 any manner whatsoever. Place: Gurugram

Registered Office: Dalmiapuram, P.O. Kallakudi, Tiruchirappalli-621 65 🚬

NOTICE OF 17th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

In terms of the applicable provisions of the Act and diroulars/ notification issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time, the notice of the AGM, annual report of the Company for the year 2022-25, the attendance slip and proxy form has been sent to those members whose name are recorded in the register of members/ register of beneficial owners, as on June 30, 2023by electronic mode at the email address available with the Company/ Depository Participant(s). For the members who are holding shares in physical mode and whose email address are not registered with the Company, can access the said notice of AGM and annual report at the website of the Company i.e. www.dalmiaool.com and also on the websile of KFIN Technologies Limited ("KFIN/RTA")

In terms of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies

4. The out-off date as on which the voting of shareholders shall be reckoned: (Monday, July

Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 P.M. IST on July

Notice is also hereby given that in terms of section 91 of the Companies Act, 2013 read. with its rules made thereunder, as amended from time to time, the Register of the

email address by sending an e-mail request at the email id einward ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile

Place, New Delhi-110001, Tel-011-23457100, Brazil: snooil@dalmiarf.com By Order of the Board of Directors

Meghna Saini



केन फिन होम्स लिमिटेड

डीपी-11, प्रथम तल, लोकल शॉपिंग काम्प्लेक्स, केनरा बैंक के उत्पर, पीतमपुरा. दिल्ली-110034, फोन: 011-41761717

मो: 7825079150. E-mail: pitampura@carifinhomes.com CIN:L85110KA198PLC008699

आरितयों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमायली 2002 के तहत प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 01.08.2022 को जारी की थी जिसमें कर्जदार (1) भी खुरज रज़क पुत्र भी गणेश रजक (2) श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री गणेश रजक, वर्तमान निवासी एतआईजी एतँट सं. एक-4, प्रथम तल (एलएचएस बैंक साइड), प्लॉट सं. ए-39 का पश्चिमी भाग, शालिमार गार्डन मेन, ग्राम पसो-दा लोनी, गाजियाबाद, यूपी-201005 से सूचना में पर्णितानुसार बकाया राशि 🕏. 14,58,192 / – (रूपये याँदह लाख अट्टायन हजार एक साँ बानबे मात्र) तथा उस पर 01 / 06 / 2022 से आगे व्याज, ध्यय तथा अन्य प्रभारों के साथ, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, युकाने की मांग की गई थी।

[बयम ४८] देखा करू। धूचना (अचल सम्पत्त के लिए)

कर्जदार उक्त राशि युकाने में असकत रहे हैं, एतदहारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अबोहरताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमायली 2002 के नियम 8 के साथ परित उक्त अधिनियम की धार। 13(4) के तहत उसको प्रदत्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीये पर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 03.07.2023 को प्राप्त कर तिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों, गारंटर/रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपन्ति को संबंध में संध्ययहार नहीं करने हेतु सायधान किया जाता है और संपन्तियों को संबंध में कोई भी संध्ययहार कोन किन होम्स तिमिटेड, की बकाया राशि रु. 14,58,192/-(रूपये चाँदह लाख अटटायन हजार एक साँ बानबे मात्र) तथा आगे ब्याज, ध्यय तथा अन्य प्रभारो के प्रभाराधीन होगा।

बंधक संपन्ति का विवरण

संपत्ति का यह सब हिस्सा और पार्सल यहां स्थित है.

एतआईजी एतंट सं. एक - 4, प्रथम तत (एतएयएस बैक साइड), प्लॉट सं. ए - 39 का परियमी भाग शांतिमार गार्डन मेन, ग्राम परोन्दा लोनी, गाजियाबाद, यूपी-201005

संपत्ति की सीमाएं निम्न प्रकार हैं. खत्तर प्रयेश

पूर्व . तिएट / प्लॉट सं. ए-40 परिचम . एतंट सं. एफ-3

तिथिः 07.07.2023

हस्ता./-प्राविकृत अधिकारी, केन किन होस्स लिमिटेड



स्थानः पीतमपुरा, दिल्ली

दक्षिण : रोड

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पत्त । विकित्त प्रे. श्री. विक्रीय पत्र, पत्तपुरविक्त क्षेत्र, वर्षाव क्षेत्र, वर्षाव विक्रार, पर्व विक्राती-18000

पंजी क्याबीका । ००. प्रापुर्विका केंद्र, क्यांच खेता, क्यांच विकार, पर्व विकास-१९००रा कुरमा । 015-80007000. वैद्या की कार । 9000 292 0000. 🎮 i enstomer.care a herohil.com 🕶 i www.herohousingfinance.com, TRAFFE T : TOROGENOUS CONTRACTOR

सिववस्य सूचना (भिचल सपक्रतकः स्तू) (प्रतिभृति क्षित पवर्तन कित्रमावसी २००२ के कित्रम 8(1) के लाग पवित परिश्राण IV के अनुसार)

क्यांक, अमाहरतावरकता न हो है हा वाराम काइनेस स्थितिहरू के प्राप्तिकत आर्थकारी के उन्हें ने वि वरिराप्यक्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुतर्तिर्वाण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अभिनियन 2002 के अंतर्वत औ प्रतिभृति डित (प्रवर्तन) नियमायसी 2002 के नियम 3 के साथ पठित भारा 13(12) के अतर्पत प्रदश्त सवितयां के प्रयोगान्तर्गत, निभ्न अकितान्तार एक नाग त्यना निर्गत की थी, जित्तने उधारकर्ताओं को त्यना ने अकित विभिन्न उपन त्या की तिथि से 60 दिवसों के अदर प्रतिभगतान करने को कहा गया था।

उभारकर्ता निर्भारित बकाया रामि का प्रतिभूगतान करने ने विकल हो युक्ते हैं, अंतर्थ एतदहारा उभारकर्ता को विशंत रूप ने तथा जनसाधारण को सामान्य रूप ने सूचित किया जाता है कि समोहरतासरकर्ता ने यह इसने निध्न विवर्शनेत राप्यक्ति का, उक्त नियमावली को नियम ह को साथ पठित उक्त अभिनियम की भारा 13%) व अवर्गत उन्हें प्रदश्त सकितयों को प्रयोगान्तर्गत, अधिग्रहण कर लिया है।

उभारक र्ताको विवेश स्वयं वे तथा जन साधारण को एतदहारा सामान्य स्वयं ने सावधान किया जाता है कि सर्वित का लेग-देग न करे तथा सपन्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेग-देग, निभा सदर्भित एक सभि तथा निष्न अकित तिथि से इस सन्ति पर आकतित ध्यान और दाखिक ध्यान, बुलको, सामतो, इध्यादि डेतु डीसे ब जिति प पण्डतेत सिमिटेख को प्रभासभीत होगा |

उभारकर्ताका भ्यानाकर्षक प्रतिभूत परितपस्तियों को मोयनार्थ उपसम्भ तक्य को सदर्भ ने अभिनियम की भारा 13 की उप-भाव (३) के प्रायमानो की ओर आपन्नित किया जाता है।

ऋण स्थानासं	ব্যবিজ্ঞজনক(কাঁ) /বিনিক ভানবেজিকাবি(বাঁ) /বিনিক ঘবিশিকি(বাঁ) ক পাণ	मांग पूजना की विधि/मांग पूजना के समुख्या पवि	अविकास की विकि (राजाका/ वीविक)
HHFDELHOU 19000003186, HHFDELIPL 19000003190	पंक्रय बना, पीतू पत्पी पंक्रय बना	16—12—2122, ठ. 25,46, 142 / — दिनांक 15—12—2122 के अनुसार	त6—17—2123 (भौतिक)

प्रतिकृत परिकंपिक्यों / अक्रम कंपिक्यों का विकला : अवर्ष भू तस वीचे की ओर वर्ष शर्थ की तरक विधिन विश्वि भाग) उत्त / टेरेस अधिकारों के विना, निर्मित संपक्षित सं एक-28 क्षेत्र माप en वर्ग गाउँ अधात en.17 वर्ग मेटर कल धेर पाय 100 100 र 200 वर्ग पर्य में से छास्य सं 105 / 2 / 2 एवं 11 में से जो प्राय वाल के धेर दिल्ली राज्य दिस्ती, गर्मी सं. १४, विश्वास वार्ल, उस्तव नगर, वह दिस्ती—110052 में स्थित, सवानुवातिक अधिकारों के साथ साधारण क्रिक्ट, सीढी पतिवार। प्रवेश के साथ, अवस्तंक वार्षिण स्थल पर एक खेटी कार की वार्षिण के साथ, साधारण क्षेत्र तथा लिक्ट प्रवोग हेतु एक साधारन विद्युत बीटर संवोजन के साथ सुन्ववस्थित है, और इस प्रकार वरिसीमित है उस्तर- पत्नी २० कुट चौडी, पूर्व- २० कुट चौडी सडक, दक्षिण- संपत्ति सं. एक २३, परिचय- अन्य की संपत्ति।

25-04-2023, 8, 16,96,857 / н ничерноц केलान पर नगर दिवांक 18-14-2023 के अवसार **प्रतिकृत परिसंपरिकों ∕ अवस संपरिकों का विकरण :** फ्लैट नं. एसएक—ाव, एमआई.जी., ड्रिलीव तस पर छताधिका के साथ (वर्ष क्षथ की ओर पैसे की तरक), एक प्रदर्शनी / भोजन कथ, दो—शबनकथों, दो शीचालवों, एक रसोई ए एक बॉलक में से समाविष्ट, आकृत क्षेत्र माय आत वर्ग कुट अधांत बढ़बड़ वर्ग मेंटर जो मिनित आवासीय मूखंट र डी-४७४, डी.एस.एक. अंकुर विकार धान लोनी के क्षेत्र, वरणना एवं तक्ष्मील लोनी, जनवद गाजिवाबाद उत्तर प्रदेश – 2011102 में स्थित तथा विभावसार वरिसीमित है। उस्तर – ১৮७ संबर्धत, पूर्व- मूखंड संधी–४/३ दक्षिण – सङ्क

व मीटर वरियम- भूखंड सं. डी-ब / १० H H P N S P H O L 19000003913 स्थित कुमार N6-07-2023 25-04-2023, 8, 14,87,977 / -(स केतिक) दिवांक 18-14-2023 के अवृक्ष र

प्रतिकृत परिवासिको / अपन्न पर्यासिको का विकला : आवासीक वर्तेट व. एकएक-४ व ३, अवव तत. एक्पाइडी उताबिकारों के बिना, दो शवनकर्षों, एक प्रदर्शनी कथा, एक रसोई, एक स्नानागर तथा एक बॉसकर्नी से सम्नक्तिय जिसका क्षेत्राविभावन ६६ वर्ग गज अध्योत ६४.३४ वर्ग भेटर है, जो भूखंड सं. बी⊸६१ वर निर्मित, खसरा सं 237 में से ्याप सङ्कलाबाद, परणाव एवं तहासील लोगी, जायवद गाजियाबाद, उस्तर प्रदेश-201102 में स्थित तथा निभ्वानुसार वरिसीपित है। उस्तर- सडक 25 कुट चोडी, वृर्व- अग्र की संवस्ति, विधेश- अग्र की संवस्ति, वरिचय- सडक 25

कुट संद्री। रिकांक : 07-07-2023 हरता /- प्रापिक्त अधिकारी छ्याळ ः दिल्ली / सन्धे क्ते हीसे हाउसिंग प्रवर्तेस विभिटेड तिथि : 07 जुलाई, 2023 स्थान : नई दिल्ली

क कर्नमा का जाप

जनसामान्य के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

GOOD FYEAR.

गुडईयर इंडिया लिमिटेड

(CIN: L25111HR1961PLC008578)

पंजीकृत कार्यालयः मथुरा रोड, बल्लबगढ़ (जिला फरीदाबाद)-121004, हरियाणा, भारत फोनः 0129-6611000 ईमेल : goodyearindia_investorcell@goodyear.com, वेबसाईट : www.goodyear.co.in

62वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना एवं ई-वोटिंग जानकारी

- गुडईयर इंडिया लिमिटेड ('कंपनी'') की 62वीं वार्षिक सामान्य समा ("एजीएम") बुधवार 02 अगस्त 2023 को प्रात: 10.00 बजे भारतीय मानक समय (आईएसटी), एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का लेन–देन के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 🖊 अन्य ऑडियो विज्अल संसाधनों ("वीसी 🆯 ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जायेगी, जो कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा निर्गत परिपत्र सं. 10/2022 दिनांकित 28 दिसंबर 2022 के साथ पठित एमसीए परिपत्र सं. 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, परिपन्न सं. 20 / 2020 दिनांकित 05 मई 2020 एवं परिपन्न सं. 02 / 2021 दिनांकित 13 जनवरी 2021, परिपन्न सं. 02 / 2022 दिनांकित 05 मई 2022, परिपत्र सं. 10/2022 दिनांकित 28 दिसंबर 2022 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र सं. संबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांकित 05 जनवरी 2023 के साथ पठित परिपन्न सं सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई 2020 तथा परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी 2021 तथा परिपत्र सं. संबी / एकओ / सीएमडी 2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई 2022 ("सेबी परिपन्न") के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत विरक्षित नियमावली और सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के अनुपालन में, किसी साधारण स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना संपन्न होगी। एजीएम के लिए मान्य स्थान, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहनेवाले सदस्यों की गणना, अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणपूर्ति उद्देश्य से की जायेगी।
- एमसीए परिपन्नों और सेबी परिपन्नों के अनुपालन में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण हैं, विवरणों पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट्स के साथ, उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से भेजने का कार्य 07 जुलाई 2023 को पूरा हो गया है।
- कट-ऑफ तिथि अर्थात २६ जुलाई, २०२३ के अनुसार भौतिक प्रारूप में या अभौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यगण, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोंजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") के इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") के मध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय पर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि
 - (क) एजीएम के नोटिस में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन-देन, एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता
 - (ख) रिमोट ई-वोटिंग रविवार 30 जुलाई 2023 को प्रात: 9:30 बजे आरंग होगी;
 - (ग) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार 01 अगस्त 2023 को साथं 5:00 बजे समाप्त होगी;
 - (घ) एजीएम के दौरान रिमोट ई-वीटिंग के माध्यम से या ई-वीटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि
 - (ड) कोई भी व्यक्ति जो शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का एक सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि अर्थात् 26 जुलाई 2023 के अनुसार शेयर रखता है, वह एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर या आरटीए को srikant@skylinerta.com पर एक अनुरोध भेजकर ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो मीजूदा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है;
 - (च) सदस्य ध्यान दें कि : (क) रिमोट ई-वोटिंग मॉडचुल को एनएसडीएल द्वारा मंगलवार 01 अगस्त 2023 को सार्य 05:00 बजे के बाद मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर बोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य की बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; (ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना बोट डाला है. वे वीसी 🗸 ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे; (ग) एजीएम में माग लेने वाले सदस्यगण और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, वे सदस्य, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार होंगे; और (ध) एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लामार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने, वीसी / ओएयीएम के माध्यम से एजीएम में और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के मध्यम से एजीएम में भागीदारी करने के हकदार होगा:
 - (छ) एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट www.goodyear.co in/investor-relations और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना, एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है;
 - (ज) किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप www.evoting.nsdl.com के "डाउनलोड" अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी अन्य शिकायत के लिये सदस्यगण, टोल फ्री नंबर 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लयी म्हान्ने, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 से पदनामित ईमेल आईडीज : evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्यगण, कंपनी सचिव को कंपनी के ईमेल पते goodyearindia investorcell@goodyear.com पर भी लिख सकते हैं;
 - (झ) भौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यगण, जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की रकैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गयी प्रति) कंपनी के ईमेल पते goodyearindia investorcell@goodyear.com पर अथवा या आरटीए का srikant@skylinerta.com पर उपलब्ध करके अपना ईमेल पता पंजीकृत कर सकते हैं। डीमैंट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यगण, अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ईमेल पता अपबेट कर सकते हैं।
- लाभांश के मुगतान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर गुरुवार 27 जुलाई 2023 से लेकर के बुधवार 02 अगस्त २०२३ (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।
- यदि एजीएम में मंजुरी मिल जाती है तो लागांश उन सदस्यों को देय होगा जिनके नाम 26 जुलाई 2023 के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में कंपनी किसी भी सदस्य को, उसके बैंक खाते के विवरण की अनुपलब्बता के कारण, इलेक्ट्रोंनिक माध्यम से लाभांश का भूगतान करने में असमर्थ है, कंपनी ऐसे शेयरधारक को लाभांश वारंट ढाक द्वारा भेजेगी। सदस्य ध्यान दें कि वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, लाभाश आय. 01 अप्रैल 2020 से प्रभावशाली होकर, सदस्यों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को भूगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने की आवश्यकता है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी / अपने आरटीए (भौतिक मोड में रखे गए शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीमैट मोड में रखे गए शेयरों के मामले में) के पास अपना पैन अपडेट करें।
- सेबी ने प्रतिभृतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण (यानी, पिन कोड के साथ डाक पता, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण) और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा, ०१ अक्टूबर २०२३ को या उसके बाद, यदि उपरोक्त उद्धत दस्तावेजों / विवरणों में से कोई भी फोलियों में उपलब्ध नहीं है, तो आरटीए ऐसे फोलियों को फ्रीज करने के लिए बाध्य होगा। इस संबंध में सेबी द्वारा निर्धारित प्रासंगिक विवरण और फोर्म, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रैन, केवाईसी विवरण और नामांकन विवरण यथाशीघ्र कृते गुडईयर इंडिया लिमिटेड के लिए

अनूप कर्णवाल

कंपनी सचिव एवं अनुपार

OUR SPECIALITY IS YOU

आटेमिस मेडिकेयर सर्विसन लिमटड CIN: L85110DL2004PLC126414

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर १४, सेक्टर २०, द्वारका, दिल्ली- ११००७५ कॉर्पोरेट कार्यालय: आर्टेमिस अस्पताल, सेक्टर- ५१, गुरुग्राम, हरियाणा- १२२००१ फोन: +91-124-4511 111, ईमेल: investor@artemishospitals.com वेबसाइट: www.artemishospitals.com

19वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि **आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड** ("कंपनी") के सदस्यों की **19वीं वार्षिक आम बैठक** ("एजीएम") मंगलवार, **१ अगस्त, २०२३ को अपराहन ३:०० बजे** (आईएसटी) कंपनी अधिनियम, २०१३ (*अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में और सामान्य परिपन्न संख्या १४/२०२० दिनांक ८ अप्रैल २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, 19/2021 दिनांक 8 दिसम्बर 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर २०२१; २/२०२२ दिनांक ५ मई २०२२ और १०/२०२२ दिनांक २८ दिसम्बर २०२२ के साथ पठित और कॉपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्र और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 और SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी 2023 (इसके बाद सामुहिक रूप से परिपत्र के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसायों का संचालन करने के लिए सदस्यों की सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो केॉन्फ्रेंस (*वीसी*)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (*ओएवीएम*) के माध्यम से, आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 19वीं एजीएम की सुचना की इलेक्ट्रॉनिकॅ प्रति ७ जुलाई, २०२३ को उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी गई है, जिनके ई- मेल आईडी ३० जून, २०२३ तक कंपनी/ अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड ("आरटीए")/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डीपी") के साथ पंजीकत हैं। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.artemishospitals.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंज जैसे की बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यों से अनरोध है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग के निर्देशों, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी के

निर्देशों सहित एजीएम की वार्षिक रिपोर्ट और नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां प्राप्त करने और उनके बैंक खाते में लाभांश का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्राप्त करने के लिए अपने केवाईसी विवरण को निम्नलिखित तरीके से अद्यतन/पंजीकृत करें : भौतिक होल्डिंग के प्रपत्र ISR-1 और अन्य प्रासंगिक प्रपत्र के अनुपालन में निर्धारित सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 दिनांक १६ मार्च, २०२३ के अनुसार केवाईसी विवरण जैसे पैन, ई-मेल मामले में पते और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज ("ईसीएस") अधिकार का विवरण कंपनी के आरटीए के साथ

rta@alankit.com पर भेजकर पंजीकृत/अद्यतन करें। कृपया अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में केवाईसी विवरण जैसे पैन, ई-मेल डीमेट होल्डिंग के मामले में पंते और बैंक खाते के विवरण को पंजीकृत/अपडेट करने के लिए अपने डीपी से संपर्क करें।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के निर्देश

- सदस्यों द्वारा वोट डालने की स्विधा ("ई-वोटिंग") एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और शेयरधारक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के निर्देश एजीएम की सूचना में शामिल हैं।
- जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम के नोटिस में बताए गए व्यवसाय पेर दूरस्थ रूप से अपना वोट डालने की सुविधा होगी।
- कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, २५ जलाई, २०२३ को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइन्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से 19वीं एजीएम की सूचना में निधीरित व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों के मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
- एजीएम की सचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा;
- रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, २९ ज्लाई २०२३ को सुबह ९:०० बजे (आईएसटी) शुरू होगी।; रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, ३१ अगस्त २०२३ को शाम ५:०० बजे (आईएसटी) समाप्त होगी।:
- 4. इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख मंगलवार, 25 जुलाई,
- 2023 है और जो व्यक्ति कट-ऑफ तारीख तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से लेना चाहिए; 5. व्यक्ति, जो एजीएम की सुचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर धारण करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है वोट देने के लिए
- पात्र है. वह एजीएम की सेंचना में दिए गए अनुसार लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए कर सकता है: सदस्य यह धयान दे कि:

 - » उपरोक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
 - » जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले टिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे;
 - एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; » वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी २५ जुलाई, २०२३ को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर/
- लाभकारी मालिकों की सूची में दर्ज है, केवल वही रिमोर्ट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। १९वीं एजीएम की सुचना वार्षिक रिपोर्ट के साथ वेब-लिंक https://www.artemishospitals.com/investors पर उपलब्ध है।
- कंपनी के निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए श्री दीपक कुकरेजा (प्रैक्टिस सर्टिफिकेट नंबर 8265 धारक), पार्टनर, डीएमके एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव ("डीएमके") को संवीक्षक के रूप में, और उनके असफल होने की स्थिति में, सश्री मोनिका कोहली (प्रैक्टिस सर्टिफिकेट नंबर ४९३६ धारक), पार्टनर, डीएमके, को वैकल्पिक जांचकर्ता के रूप में नियक्ति कर दिया है।
- रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग से संबंधित महों और किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध उपयोगकर्ता मैनअल को र्देख सकते हैं या कॉल करें: 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, विटष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेंड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३ को निर्दिष्ट ई-मेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर अन्रोध भेजें। सदस्य कंपनी सचिव को investor@artemishospitals.com पर भी लिख सकते हैं।
- लाभांश के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि १४ ज्लाई, २०२३ है। लाभांश का भ्गतान एजीएम की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, जो 19वीं एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन होगा।

कृते आरेंमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड

दिनांक: ७ जुलाई, २०२३

हस्ता/-पूनम मक्कड

शास्त्रा का नाम एवं राम्पर्क

स्थान: गुरुग्राम कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

इण्डियन ओवरसीज बैंक असेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा

शाध्द पत्र काइनेंसियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) में 28.06.2023 को

मेसर्स एपी मल्टीप्रोडक्ट्स से संबंधित है जिसे "IOBAAPMULTIC1" के सप मै पढ़ा जाना चाहिए ।

रचना बिल्डिंग, चतुर्थ तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली–110008 फोन नंबर : 011-25758124, ई-मेल आईडी : iob1997@iob.in

प्राधिकृत अधिकारी, स्थान : नई दिल्ली तिथि : 06.07.2023 इण्डियन ओवरसीज बैंक

प्रकाशित हमारे ई-नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में हैं। हम सुचित करते हैं कि संपत्ति आईडी OBAAPMULTIC1 की नीलामी खाता

इन्टेक कैपिटल लिमिटेड मांग सुबना का प्रकाशन विज्ञीय परिसम्पतियों के पुरिश्विकरण एवं प्रतिर्वर्ण क्या पुरिश्वि दित पुवर्कन

अधिरिषप, 2002 को धार 13(2) के अंकर्गत सूचरा लीळ ळावर ले सांग लूटाना तिथि। 12.6.2023 दिनांकर 13.6.2023 को मेजी गई। . मै. एलायङ इंजीनियांना लॉल्युशन्त (ऋणयात्क) हात उतके प्रॉपाइटर भी संजीय जैन पता : प्लॉट मं १२१-के एक. वार्ड मं १११२, जलाकाबाद, कुई इंडरियन एरिया, एक्एलएम कॉलेज के थेले, निकट प्रामेडिक एटील, मेरट हेड, गानिमाबाद - 201206 लाघ ही : निवासी : 3/21, राजनवर, वाजिसवाद- 201002.

लाम हो । निवासी: अ 15. ईमेल : alliedengineeringssolutions@yahoo.com लंजीय जैन (गारंडर/प्रोपाइटर/गार्डगैजर) 201002. स्वय 🛱 : निवासी : 3/13, राज्यगर, सिक्सबाद- 201002

लाम ही : केडी- 53. कविनगर, गणिसवाद, उ.र -201002. लाम ही : प्लॉट रं 721-के एक. वर्ड रं 0172, जलालाबद, कुई इंडॉस्ट्रक्ल एरिंगा, एकएतएम कॉलेज के पीड़े, निकट पर्सोन्डिमा स्टील, मेस्ट हेड,

लाम हो : विकासी: 3/2 1, तजनगर, गजिमाबाद- 201002

गाजिमाबाद- 201206 (मित्यी सम्पति) शनो जैन (गांदर). आर - अंड राजरगर, गाजिमाबाद - 201002

लाम ही : विकासी 3/21 , उज्जनगर, शक्तिमाबाद- 201002 लाम हो : केडी-53, कविरगर, गक्तिमाबाद, उ.प.-201002 बिहारी लाल जैन (गारंडर) अर -3/15 राजसगर, गाजिमाबाद- 201002 लाम ही : विकासी 3/21 , राजपणर, शक्तिमाबाद- 201002

गरितमाबाद- 201206

एलायङ इंडरद्वीज (गारंडर), हारा उसके प्रोपाइडर लुबी शलो जैन. 13/5, ਬੈਟਣ ਰੇਡ, ਬੜਿਸਾਕਾਰ ਹ ਓ - 201003 लाय ही : प्लॉट रं १२१-के एक, वर्ड रं ०११२, जलालाबाद, कुई इंडॉस्ट्रक्ल एल्सि, एकएलएम कॉलेज के पीड़े, निकट पर्तोन्डिमा प्टील, मेस्ट हेड,

देशकाः ऋषा अनुवर्धन सं LNNO 100613-14000 3199 विध्य ३१ १२ २०१३ अस्य र ऋमों की पुनअदम्पनी में चूक की है और हाग़ीलिने हर्रक वैपिटल लिपिटेड में उर्बोधत अप की ऋष खाता को 30 6 2016 को नैर-प्रकारन परिसम्पत्ति (एनपीए) घोपित किया गया 🕏 तम 20 02 2023 को रू. 10,18,69,1827 - (रू. दल करीड़ अद्यातः लाखा उन्हमर हजार एक ली क्याली माग्र) की तरि बकामा है। अधिनियम के अंतर्गत इंट्रेक कैप्स्टिल लिस्टिंड ने मांग एक्ना तिक 12.06.2013 - अपरी

कर जो 13 G 2023 को अधिनियम के अंतर्गत भेजी गई, अध्यको रू. 10,18,69,1827- । रू.

दल करोड़ अदातः लाख उन्हणर हजार एक ली बचाती मात्र) की बकामा तरि वापस

लौटाने का निर्देश दिमा वा। उक्त सुचना "अपर्मात पता तथा पता का स्थाप नहीं पिला" की टिप्पमी के स्वथ वापए लौट अपर्र। अतः उक्त एक म प्रकाशित की जा की है। उक्त एक गा 24 G 2023 की जी आर एक प्रमा को सुपूर्व की गई तथा उसे गिरवी परिगर में उपमुक्त जनक विषकमा नमा। अतः मक एक ग एक जिल है। एक द्वारा अपन्यों निर्देश दिया अपना है कि इस सूचनी की तिथि से 60 दिनों के नीतर रू. 10,18,69,1827- (रू. दल करोड़ अस्टातर लाखा उन्हमर रूजार एक ली अधाली भाव) की शांत का गुगतान करें. अन्यात इन्टेक कैपिटल लिपिटेड कार्र नीचे वर्णित प्रतिकृत परिराम्पति के विरुद्ध प्रतिभूति फिर के प्रवर्तन के अपने अधिकारी का प्रमोग

अधिकार, उपचार के प्रति प्रवाहक तील है।

प्लॉट वं. 721- के एव. माप 1400 वर्ष पाइँछ (1170.34 वी.) वार्ड वं. 0172. परवणा रत मलालाबाद, बाब दुःखं इंडीस्ट्रयल परिया, एवएलएब स्तेलेम के पीछे, पशोन्द्रा स्टील के विकट. मेख गेड. बरुपील एवं जिला शर्जिशवाद में स्थित आवाधीय वर्णिक्यासः/ सम्पतिः/(भूमिः/भवनः/ सायनाः/ कियवाः

करने के लिसे अध्य होगा। यह सुचग हर्रक वैश्विटल लिपिटेड को उपलब्ध किसी अन्य

वॉल्ब्रे : उत्तर : विक्रोता क्षी भूमि, व्रीक्षयः खाली भूमि, पूर्व अन्य सम्पत्ति, पञ्चिम 25 प्लेट विधि: 8 7 202 3 कृषे बन्देक कैपिटल लिबिटेड स्थान : गाजियकाट माधिकृत अधिकारी

इंडियन ओवरसीज बैंक

था, की बिक्री ''जैसा है जहाँ है", ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है" के आभार पर 26.07.2023 को निप्नलिखित विवरणों के अनुसार की जायेगी।

भाग मनम की विधि पूर्व बकामें (नमनी कहा | आर्मित मृत्य (रू. 50.00 लाख से अधिक की |

'गैसी कॉम्पलेक्स, सेक्टर-३३, प्रथम एवं द्वितीय तल, फरीदाबाद-१२१००३ दुरभाष: 0129-2259544-50

नीलामी की तिथि एवं समय : 26.6. 023 को (पहली बार की नीलामी) 11:00 बजे पूर्वा, से 01:00 बजे अप तक

अचल एवं चल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सुचना

बंधककर्ता (सम्पत्ति के स्वामी) के नाम स्वदित सम्पत्ति का विवसमा

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम ७(७) तथा नियम ७(२) के प्रावधानों के तहत। प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम ७(३) के प्रावधानों के प्रतिभृति हित अधिनियम, २००२ के तहत अवल एवं चल आस्तियों की बिक्री हेत् ई-नीलापी बिक्री सुचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रीं) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/दृष्टिबन्धक/प्लेज्ड/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर इंग्डियन औवरसीज बैंक के अभिकृत प्रापिकारी (प्रतिभूत अभिकारी) ने सांकेतिक/भौतिक कब्जा कर लिया

sh. सं.	कजदार का नाम	माग सूचना का तिथि एवं बकाय (वसूली तक अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज, रेस्ट, प्रभार आदि सहित}	सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य पर १% आयकर सहित) इंएमडी राशि/संविदा युद्धि राशि	बडककता (सम्पन्न क स्वामा) क नाम साहत सम्पन्न का विवस्ण कब्जे का प्रकार (सिकेतिक/भौतिक कब्जा)	शास्त्रा का नाम एवं सम्पक व्यक्ति का विवसण
1.	मैससे हबोर्जीन लाहफ साइंसेज प्रा. लिमिटेड	19:09:2022 石、1,24,01,140:00	を、1,71,61,000/- も.17,16,100/- も、25000/-	फ़ी होल्ड रिहायशी मकान नंबर 147470, सेक्टर-14, वर्सुधार, गाजियाबाट- 201012, उत्तर प्रदेश का पूरक इक्विटटेबल ब्रेथक। पाप 114.93 वर्ग मीटर। संपत्ति श्रीमती ब्रिंटु गाण्डेय एवं श्री प्रमोट कुमार गाण्डेय के नाम है। (सोकेतिक कब्जे के तहत)	गाजियाबाद शाखा श्री प्रसन्ता मी सम्पर्क नं. 7720089535
2.	श्री गोपाल	च. ४०,०१,२२४.००	も、27,29,000/- も2,72,900/- も、25000/-	अवासीय र्पपि 2 बीएवके फ्लैट 'एवलॉर रंपोली' फ्लैट तंबर 1204, 12वीं रंजिल, टॉवर ए 1, सेक्टर 24, शास्त्रेज, हरियाणा -121105, गाप 1300,00 वर्ग फीट (लगभग) संपत्ति का अवंटर भी गोपाल (भूगि मालिक/वेवलपर - गैसर्ग एवलॉर ग्रोजेक्ट्र्य (मैसर्ग जीआप्त्रे विस्ट्रीक्यूलंग एंड वेवलपर्ग प्राक्तेट लिमिटेड की इकाई) के गाम पर प्राधिकृत हस्ताक्षाकर्ता - भी अजय सिंगल और भी अजय कुमार पुत्र) (ग्रोकेंग्रिक कच्चे के तहत)	रिटेल मार्ट-गुड़गांव शाखा श्री सुरिन्दर कुमार सम्पर्क नं. १९१५५५९५०९
3.	श्री चैंनिका आर चौहान, रंजीत सिंह चौहान	25.07.2022 节.38,72,104.72	も、27,29,000/- も、2,72,900/- も、25000/-	आवासीय संपत्ति २ बीएवके फ्लैंट 'एवलीन रंगीली' फ्लैंट तंबर 1002, 10वी मीजिल, टीवर ए २, संकटर -२, शारूढ़ेड्डा, जिला: रेवाडी, हरियाणा -121105। माप 1300.00 वर्ग फीट (लगभग)। संपत्ति का आवंदत श्रीमती चैतिका आर चौहात (भूमि मालिक/डेवलगर - मैसर्स एवलींन प्रोजेक्ट्स (मैसर्स जीआरजे डिस्ट्रीब्यूगंस एंड डेवलगर्स प्राइवेट लिमिटेड की इकाई, प्राथिकृत हस्ताक्षरकर्ता -श्री अजय सिंगल और श्री अजय कुमार गुप्ता के नाम पर) (सोकेतिक कबजे के तहत)	
4.	गौरव शुक्ला, सौरभ शुक्ला	15.12.2021 で、23,56,361.34	চ. 17,55,000/- চ.1,75,500/- চ. 25000/-	आवासीय संपत्ति फ्लैट नंबर 5, दूसरी मंजिल, फ्लॉट नंबर 76, खसरा नंबर 543, फ्लोरा एन्क्लेब में स्थित, इंदरगड़ी, गांव: डासना, परगना, डासना, तहसील और जिला: गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201015। माप 71.05 वर्ग मीटर। संपत्ति श्री गौरव गुक्ला और श्री सौरभ गुक्ला पुत्र श्री भागवत प्रसाद गुक्ला के नाम पर है (भौतिक करूने के तहत)	हन्दिरापुरम शाखा श्रीमती खर्मजील सिंह लौधी सम्पर्क नं. ४८२३४००४५४
5.	गैहित, श्याम सुन्दर	20.04.2022 चि. 31,50,405.21	চ. 28,77,000/- চ.2,67,700/- চ. 25000/-	बिना छत के अधिकार के पहली पीजल पर आवासीय फ्लैट, फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन, प्लॉट ने जी-1/253, स्नासर ने 76/12, ब्लॉक जी-01, उत्तप नगर, प्राप-हस्तासाल, नई दिल्ली-110059, पाप 900,00 वर्ग फीटर। सप्पत्ति श्री रोहित और श्री श्याप सुंदर के नाप पर है (भौतिक कब्जे के तहत)	
á.	थ्री अनिल चौधरी	30.07.2022 飞.17,26,323.00	も、9,34,000/- も、93,400/- も、25,000/-	आवासीय फ्लैट नंबर 001, प्राउंड फ्लोर, टावर बी 2, एवलॉन होप्स, सेक्टर-108, अलावर बाय पास रोड, मिवाड्री, राजस्थान - 301019। पाप 650 वर्ग फीट। संपन्ति का आवंटन श्री अनिल चौथरी (भूपि पालिक/डेवलपर - पेसर्स एबिएान बिल्डर्स प्राइवेट लिपिटेड, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता -श्री अजय सिंगल और श्री अजय कुपार गुप्ता) के नाम पर (सांकेतिक कबजा के तहत)	सेक्टर ४४, गुरुग्राम शास्त्रा श्री सुभाष कुमार सम्पर्क ने. ६५५२६६२२११
7.	जानकी देवी	17.01.2022 币.29,50,766.06	も、30,00,000/- も、3,00,000/- も25000/-	प्लॉट तंबर 23, पहली पीजल, ओप नगर, गांव- अर्थला, परगना लोगी, तहसील और जिला: गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201002 में आवासीय संपत्ति। पाप 33.61 वर्ग पीटर। संपत्ति शीपती जानकी देवी के नाप है। (भौतिक कबजे के तहत)	राजेन्द्र नगर, गाजिवाबाद शाखा श्रीमती यौगिता निगम सम्पर्क ने. ९५४०९२०४१५

बकाया सरकारी देवताएँ, यदि कोई हो : ज्ञात नहीं। ईएमडी प्रारम्भ होने की

सम्पति के निरीक्षण की तिथि एवं समय : 11.07.2023 से 25.07.2023 तक 10.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक।

तिथि : 11.07.2023, ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि : 25.07.2023 तक। ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 26.07.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप. तक।

ई-नीलामी के नियम एटा शर्ते :

ईएपडी के बिना बोली सिर्र से निरस्त कर दी जायेगी।

ा. सप्पत्ति की बिक्री बैंक के प्राप्तिकृत अधिकारी के पर्यवेक्षण में बैंक के अनुमोदित रोवा प्रदाता पोर्टल https://ibapi.In के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा की जायेगी। 2. ऑन लाइन ई-नीलापी बोली प्रपत्न, उद्योषणा, ऑन लाइन नीलापी बिक्री के नियम एवं शतौ से शामिल ई-नीलापी निविदा दस्तावेज https://ibapi.in पर उपलब्ध हैं।

3. इच्छुक बोलीदाता के पास बैंध दिनीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र तथा ई-पेल पता होना चाहिये तथा उपर्युक्त सेवा प्रदाता की बेबसाइट पर लॉगिन द्वारा अपने नाप्य खाता रिजस्टर करना चाहिए। उन्हें उपर्युक्त सेवा प्रदाता द्वारा लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जिसे ई-नीलापी कार्यवाहियों में प्रयोग किया जाना है। डिजीटल हस्ताक्षर से संबंधित विवरणों के लिये कृपया सेवा प्रदाता के पोर्ट https://ibapi.in से सप्पर्क करें।

4. निर्पारित प्रारूप में बोलियां पोर्टल https://ibapi.in के माध्यम से 25.07.2023 को 05:00 बने अप. तक सेवा प्रदाता तथा अधिकृत प्राप्तिकारी के पास फोटो, पैन कार्ड एवं पते के प्रमाण सहित ईएमडी के विवरण तथा केवाईसी दस्तावेजों की स्कैन की गयी प्रति के साथ "ऑनलाइन" जमा की जायेगी अन्यथा इन

5. ईएपडी तथा अन्य भुगतान कपर निर्देष्ट बैंक खाता में ईएफटी/ एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित की जायेगी और इच्छुक बोलीदाता डारा जमा ईएमडी सांश पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल संविदाकार डारा प्रदत्त ईएपडी विक्रय मूल्य में समायोजित कर दी जायेगी।

7. ऑन लाइन नीलापी बोली उपरोक्त तिथि एवं रापय पर स्वतः शुरू होगी। बोली/नीलापी का सपय आरंभ में 120 पिनट के लिये खुला है जिसे बिक्री की पूर्णता तक प्रति 10 पिनट के लिये आगे बढ़ाया जायेगा। सम्पत्ति की बिक्की सफल बोलीदाता को की जायेगी। अपिकृत प्राप्तिकारी द्वारा घोषित के अनुसार सफल बोलीदाता (केता) को उनके पक्ष में बिक्की विकास अगले कार्यदिवस तक 25% बिक्की मुल्य (ईएपडी सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष बिक्की मुल्य का भुगतान नीलामी सुनिश्चित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। निर्भारित अविध के भीतर सम्पूर्ण विक्री मूल्य का भुगतान नहीं करने पर जमा की गई 25% निविदा मूल्य जब्त कर ली जायेगी तथा बोलीदाता सम्पत्ति के प्रति सभी दावे से बंचित हो जाएंगे तथा उसकी फिर से विक्री की जायेगी।

 बिक्री प्रमाणपत्र सम्पूर्ण बिक्री मूल्य राशि तथा अन्य कर/प्रभारों, यदि कोई हो, के भुगतान के पश्चात केवल केता के नाम पर ही जारी किया जायेगा। 10. केता को कानून के अनुसार लागू कान्वीयन्स नैसे पंजीकरण शुल्क, स्टाप्प शुल्क आदि के लिये देय प्रभारों/ शुल्कों का वहन करना होगा। 11. प्राप्तिकत अपिकारी को बिना कोई कारण बताये जैसा भी पापला हो. बोली को स्वीकार अथवा निरस्त करने, जैसा पापलो हो, अथवा बिक्री को लिप्बत या स्थिगत करने का संप्रभ अपिकार प्राप्त है। 12. सप्पत्ति की बिक्री ''नैसा है नहीं है'', ''नो है यही है'' तथा ''नो कुछ भी है वहीं है'' आभार पर की नायेगी। बैंक ने उपर्युक्त के अनुसार केवल ज्ञात ऋणभारों, विभिक्त देयताओं, यदि कोई हों, का ही प्रकटन किया है। किन्तु, इच्छुक बोलीदालाओं को स्वयं की लागत पर अपनी संविदा जपा करने से पूर्व सप्बद्ध

सहकारी आवास समितियों/एसआरओ तथा नीलामी के लिए रखी सम्पत्तियों के स्वामित्व, प्रकृति, विवरण, दशा, ऋणभार, लिएन, प्रभार, विभिक्ष बकायों आदि के सम्बन्ध में तथा सम्पत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अभिकारों/बकायों के लिए राजस्व अभिलेखों से अपनी स्वतन्त्र पूछताछ करने लेनी चाहिए। सम्पत्तियों

 यह बिक्री प्रतिभत केडीटर की पिष्ट के अभीन होगी। ाथ. असफल बोलीदाता की ईएपडी बोली प्रपत्र में उनके डारा दी गई बैंक खातों में ईएफटी/ एनईएफटी/ आरटीजीएस डारा वापस लीटाई जायेगी तथा ई-मेल आईडी के माध्यम से उन्हें सूचना दी जाएगी। 15. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शतों के लिए कृपया इण्डियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट अर्थात www.iob.in में प्रावधानित लिंक [https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=E_Auction] अथवा https://ibapi.in देखें।

की बिक्री बैंक को ज्ञात या अञ्चात समस्त वर्तमान तथा भावी ऋगभारों सहित की जा रही है। प्राप्तिकृत अभिकारी/ प्रतिभूत के हीटर किसी तीसरी पार्टी के दावे/अभिकारी/ बकायों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।

Date: 07.07.2023 Place: Delhi / NCR Authorised Officer Indian Overseas Bank

www.readwhere.com